

“सतर्कता जागरूता सप्ताह”

(दिनांक 27 अक्टूबर, 2020)

आंतरिक सुरक्षा अकादमी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आबू पर्वत में दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को सतर्कता जागरूता सप्ताह श्री अरुण कुमार, निदेशक/महानिरीक्षक, आंसुअ, केरिपुबल, आबू पर्वत के मार्ग निर्देशन तथा श्री के. थोमस जोब, उप महानिरीक्षक (प्रशासन/प्रशिक्षण) के निर्देशन में दिनांक 27 अक्टूबर, से 02 नवम्बर, 2020 तक मनाया जाएगा। दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को श्री के. के. पाण्डेय, कमांडेंट (प्रशासन/प्रशिक्षण) ने सतर्कता जागरूता सप्ताह परेड में उपस्थित अधिकारियों एवं जवानों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर भ्रष्टाचार का विरोध करने, व्याप्त रिश्वतखोरी को रोकने, तथा पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कार्य करने की शपथ दिलाई। तथा अपने संबोधन में बताया की भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में सभी जागरूक होकर एवं पूर्ण ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करे, तथा भ्रष्टाचार से होने वाले नुकसान के बारे में जन जागरूकता पैदा करें। प्रत्येक वर्ष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के सप्ताह को देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आंसुअ के सभी राजपत्रित अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और जवान उपस्थित थे। सतर्कता जागरूता सप्ताह पर ली गई सतर्कता जागरूता “शपथ”

संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

हम प्रतिज्ञा करते हैं कि:-

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे।
- हम ना तो रिश्वत देंगे और ना ही रिश्वत लेंगे।
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं।
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएंगे।
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पक्षता के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे।
- हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा पर्दाफाश तंत्र का प्रबंध करेंगे।
- हम संबंधित पक्षों एवं समाज के अधिकारों तथा हितों का संरक्षण करेंगे।



श्री के. के. पाण्डेय, कमांडेंट (प्रशासन/प्रशिक्षण), आंसुअ, केरिपुबल, आबू पर्वत, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के शुभारम्भ पर शपथ दिलाते हुए ।